

**DSCS-429**  
**Certificate in Yogic Science Examination, 2020**  
**Mental Health**  
**Paper - III**

**[Maximum Marks : 100]**

**नोट :-** प्रत्येक खण्ड से पूछे गये प्रश्नों के अंक समान है। प्रत्येक खण्ड का उत्तर नवीन पृष्ठ से प्राप्त करें। समस्त प्रश्नों को अनिवार्यतः हल करें। उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 पृष्ठ से अधिक न हो। विद्यार्थी द्वारा स्वयं की हस्तलिपि में उत्तर लिखना अनिवार्य है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) से प्राप्त करें। (प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सामान्यतः 250 शब्दों से अधिक न हों।)

**Note :-** All questions from each section carry equal marks. All questions are compulsory and answer limit are approximately 250 words. Start the answer of each section from new page. Maximum limit of pages of answer booklet are approximately 16 pages. Answer should be written by the student in his/her own handwriting mandatory. The first page of answersheet should be download by the student from university website [www.bubhopal.ac.in](http://www.bubhopal.ac.in) is mandatory.

**1.** प्रार्थना क्या है ? प्रार्थना के प्रकारों को विस्तार से लिखिए।

What is Prayer ? Write the types of prayer.

**2.** “शारीरिक स्वास्थ्य और आसन” विषय पर निबंध लिखिए।

Write an essay on the subject of Physical health and Asana.

**3.** प्राणायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए।

Write the effect of pranayama on mental health.

**4.** भोजन का मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन कीजिये।

Discuss the effect of food on mental health.

**5.** मांसाहारी भोजन के नकारात्मक प्रभावों को लिखिए।

Write the negative effect of non vegetarian food.

